

STANDARD SURFACTANTS LTD.

8/15, ARYA NAGAR, KANPUR-208 002 (INDIA)

Tel. : 0512-2531762 • Fax : 0512-2548585

E-mail : headoffice@standardsurfactants.com

Website : www.standardsurfactants.com

CIN No. : L24243UP1989PLC010950

To

Dated: 31.05.2024

BSE Limited,

P. J. Tower, Dalal Street,

Mumbai-400001

Scrip code: 526231

Subject: Submission of newspaper advertisement clippings of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31.03.2024.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the company has published the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024 on 31.05.2024.

Copy of newspaper clippings are attached herewith.

Kindly take the same in your records and oblige us.

Thanking you

Yours faithfully

For

Standard Surfactants Limited

Pawan Kumar Garg

(Managing Director)

Encl: As above

Works :

• 24 A & B New Sector, Industrial Area, Mandideep, Bhopal - 462 046 (M.P.)

IN THE NEWS

UNCONDITIONAL EU NOD
KKR's \$24-bn Telecom Italia deal approved

IMRAN: PAK POLL WAS BIGGEST ROBBERY

PAKISTAN'S JAILED FORMER prime minister Imran Khan said February's national election was stolen from his party, describing it as the "biggest robbery of a public mandate". Khan, speaking in the Supreme Court via video link from Adyala jail said he was being held in solitary confinement.

MANAGEMENT SHAKE-UP: UBS SPLITS ROLE

UBS SAID ON Thursday it would split its top wealth management role as part of a shake-up of its executive board, creating new responsibilities for two leading contenders to eventually run the Swiss bank after CEO Sergio Ermotti.

SAUDI SET TO LAUNCH \$10 BN ARAMCO OFFER

SAUDI ARABIA IS PREPARING to formally launch a secondary offering of shares in oil giant Aramco as soon as Sunday, a deal that could raise more than \$10 billion and rank among the largest of its kind in recent years.

GOOGLE TO INVEST \$2 BN IN MALAYSIA

GOOGLE COMMITTED TO making \$2 billion in investments in Malaysia, including developing its first data center and a cloud facility. The pledge marks Google's largest planned investment in the Southeast Asian nation, according to Alphabet CFO Ruth Porat in a statement Thursday.

BROOKFIELD IN TALKS TO BUY FRANCE'S NEOEN

BROOKFIELD IS IN exclusive talks to acquire a majority stake in Neoen SA with a view to launch a takeover offer that would value the French renewable energy developer at about €6.1 billion (\$6.6 billion).

TAIWAN RAISES ITS 2024 GDP FORECAST

TAIWAN'S TRADE-RELIANT economy is expected to grow at a faster pace in 2024 than previously forecast, owing to high demand for AI applications abroad and solid consumption at home, the statistics office said.

REUTERS Brussels, May 30

US INVESTMENT FIRM KKR secured unconditional EU antitrust approval on Thursday for its 22-billion-euro (\$24 billion) acquisition of Telecom Italia's (TIM) fixed-line network. The deal is significant as it marks the first time that a big telecoms operator in a major European country is divesting its landline grid, potentially paving the way for others to follow suit.



Telecom Italia tower

The European Commission's announcement confirmed a Reuters' story last week. "The Commission investigated the impact of the transaction on the market for wholesale broadband access services in Italy and concluded that it would not significantly reduce the level of competition," the EU executive, which also acts as the EU antitrust watchdog, said.

KKR has sought to address concerns of Telecom Italia's rivals about those rivals' existing contracts put in place after the creation of FiberCop, Telecom Italia's last-mile grid unit, and has offered a pledge to keep them on the same terms and prices, people with direct knowledge of the matter have

told Reuters. This informal remedy has also allayed EU worries, they said.

The Commission said a master services agreement (MSA) that will govern the relationship between NetCo (the grid acquired by KKR) and TIM post-transaction is not an integral part of the transaction, as it is not an agreement through which KKR acquires control over NetCo.

Some rivals including Vodafone had voiced concerns about the master services agreement.

TIM's landline network covers nearly 89% of households in Italy and its fibre and copper cables stretch over 23 million kms (14.3 million miles). The grid sale is part of a government-backed plan to cut Telecom Italia debt.

WeWork cleared to exit bankruptcy, slash debt

DIETRICH KNAUTH New York, May 30

A US BANKRUPTCY judge on Thursday approved WeWork's Chapter 11 bankruptcy plan, allowing the shared office space provider to eliminate \$4 billion in debt and hand the company's equity over to a group of lenders and real estate technology company Yardi Systems.

Flexible workspace provider WeWork expanded at breakneck speed but racked up steep losses on its over-extended real estate portfolio before filing for bankruptcy protection in November 2023.

US Bankruptcy Judge John Sherwood approved WeWork's restructuring at a court hearing in Newark, New Jersey. With that approval secured, WeWork will be ready to exit from bankruptcy with no debt "in a matter of days," WeWork attorney Steven Serajeddini said at the hearing.

WeWork used its bankruptcy to negotiate a significant reduction in future rent costs from its landlords and cancel leases at about one-third of its locations, ultimately reducing its future rent costs by more than \$12 billion. WeWork expects to operate 337 shared office spaces after its bankruptcy, with more than 170 locations in the US and Canada. —REUTERS

US GDP growth was slower for Q1 on soft consumer spending


MATTHEW BOESLER May 30

THE US ECONOMY grew at a slower pace in the first quarter than initially reported, primarily reflecting softer consumer spending on goods.

Gross domestic product rose 1.3% annualized in the first three months of the year, below the previous estimate of 1.6%, Bureau of Economic Analysis figures published Thursday showed. The economy's main growth engine — personal spending — advanced 2.0%, versus the previous estimate of 2.5%.

The numbers underscore a loss of momentum to start 2024 after continual upside surprises in 2023. High interest rates, waning pandemic-era savings and slower income growth are some of the key factors weighing on American households and businesses.

US ECONOMY COOLED IN FIRST QUARTER



Source: Bureau of Economic Analysis/Bloomberg

Consumer spending was marked down as outlays for goods — particularly autos — were much softer.

Federal government spending slowed, while imports picked up compared to the first estimate. Net exports subtracted from growth for the first time in two years.

consumer spending was partially offset by stronger business and residential investment. A key measure of underlying domestic demand known as final sales to private domestic purchasers rose 2.8%, versus the initially reported 3.1% increase. Economists have pointed to the strength in this metric as

reason to believe that demand is still strong, even if the headline GDP figure looks weak by comparison.

Alongside its second estimate of GDP, the BEA also publishes data on gross domestic income, its other main measure of economic activity. GDI rose 1.5% in the first quarter, according to the report.

GDP measures spending on goods and services, whereas GDI measures income generated and costs incurred from producing those same goods and services. The GDI data include figures on corporate profits. In the first quarter, adjusted pre-tax profits fell 0.6%, the first decline in a year.

After-tax profits as a share of gross value added for non-financial corporations, a measure of aggregate profit margins, were little changed at 15.2%. —BLOOMBERG

Musk ready to testify in SEC probe over Twitter stock disclosures



REUTERS New York, May 30

ELON MUSK HAS settled his latest legal fight with the US Securities and Exchange Commission by agreeing to testify for the regulator's probe into his 2022 acquisition of social media site Twitter, according to a Thursday court filing.

Musk and the SEC have agreed on an undisclosed date when the Tesla CEO will undergo questioning, they said in court papers. Musk also agreed not to appeal the court decision that ordered him to comply with the agency's subpoena.

The SEC sued Musk in October to compel him to testify after he refused to attend a September interview for the investigation. The billionaire said the SEC was trying to "harass" him through unwarranted investigations.

The probe concerns whether Musk broke federal securities laws in 2022 when he bought stock in Twitter, which he later renamed X. It is also reviewing statements and SEC filings he made in relation to the deal, the agency has previously said.



REUTERS Israeli soldiers take a selfie near the humanitarian aid for the Gaza Strip, amid the ongoing conflict in Gaza between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, at the Kerem Shalom crossing in southern Israel, on Thursday.

Rafah raid fallout: Israel lifts food sale ban in Gaza

NIDAL AL-MUGHRABI, JOHN DAVISON, EMMA FARGE & ALI SAWAFTA Ramallah, May 30

THE ISRAELI MILITARY has lifted a ban on the sale of food to Gaza from Israel and the occupied West Bank as its battlefield offensive chokes international aid, according to Palestinian officials, businessmen and international aid workers.

Army authorities gave Gaza traders the green light to resume their purchases from Israeli and Palestinian suppliers of food such as fresh fruit, vegetables and dairy goods this month, days after Israeli forces launched an assault on the enclave's southernmost city of Rafah, the people said.

The offensive against Rafah, a key gateway into Gaza from Egypt, has effectively halted the flow of UN aid to the devastated Palestinian territory. Israel is coming under mounting global pressure to ease the crisis as humanitarian agencies warn of looming famine.

"Israel phoned Gaza distributors who had been purchasing goods from the West Bank and Israel before the war," said Aayed Abu Ramadan, chair of the Gaza Chamber of Commerce. "It told them it was ready to coordinate the pick-up of goods."

The shift marks the first time any goods produced inside Israel or the West Bank, an Israeli-occupied Palestinian territory, have been allowed into Gaza since war erupted in October last year, according to the Palestinian officials, traders and residents.

Asked by Reuters about the resumption of deliveries, COGAT, the branch of the Israeli military responsible for aid transfers, said it was looking at ways to boost humanitarian aid and raise the amount of food for sale in Gaza.

"Allowing for the private sector to bring some food into the Gaza Strip is part of those efforts to increase the amount of food that's coming in," spokesperson Shimon Freedman added.

Aid workers have urged Israel for months to allow more commercial deliveries to enter Gaza so fresh food can supplement international aid, which mostly contains non-perishables like flour and tinned food.

The reopening is no panacea, though. The flow of deliveries, conducted via the Kerem Shalom border crossing between southern Gaza and Israel, has been erratic, according to Palestinian officials who said anywhere between 20 and 150 trucks — each carrying up to 20 tonnes of food — have entered per day depending on how many Israel allows in.

That is well short of the 600 trucks a day that the US Agency for International Development says is required to address the threat of famine, even when adding the roughly 4,200 trucks of food aid — about 190 a day — that Israeli officials say have entered Gaza since the beginning of the Rafah assault on May 7. —REUTERS

PwC may face record fine over Evergrande auditing

BLOOMBERG May 30

CHINA IS POISED to impose a record fine on PricewaterhouseCoopers and suspend some of the global auditor's local operations over its role in one of the nation's biggest alleged financial fraud cases, according to people familiar with the matter.

The Ministry of Finance may announce the penalties on PwC as soon as this week over its auditing work for China Evergrande, said the people, asking not to be identified discussing a private matter. PwC faces a fine of at least 1 billion yuan (\$138 million), the people said. That would exceed the previous record fine for an accounting firm, the 212 million yuan handed out to Deloitte Touche Tohmatsu in 2020.

Part of the penalties could also include a halt of operations at some of PwC's mainland offices, the people said, adding the decision isn't final and the specifics could be subject to change. The MoF and PwC didn't respond to Bloomberg requests for comments.

PwC has been under spotlight after China launched one of the biggest investigations of financial fraud in history involving developer Evergrande. Authorities earlier this year levied a 4.18 billion yuan fine against the once high-flying real estate firm and said the company's main unit, Hengda,



China central bank to sell govt bonds when necessary

CHINA'S CENTRAL BANK said on Thursday it would sell low risk debt including government bonds when necessary, while paying close attention to current bond market changes and potential risks. The People's Bank of China (PBOC) made the statement after Reuters sought comment on the scarcity of low-risk assets in China's

financial sector that is obstructing the bank's plans to return to the treasury bond market after a 17-year hiatus.

"Currently, there is a large demand for risk-free assets in the bond market, and bank deposits are diverted to the bond market due to the expectation of rising bond prices, further expanding the demand for safe assets," the PBOC said. —REUTERS

overstated its revenue by 564 billion yuan in 2 years through 2020. The penalty will damage PwC's reputation and "adversely affect the public confidence in accounting," said Pingyang Gao, a

professor in law from HKU Business School. "I wouldn't be surprised if the share of the auditing market by those global franchise in China would shrink."

IM+ CAPITALS LIMITED
Regd. Office: C-15, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad- 201001 (U.P.)
CIN: L74140UP1991PLC201030 | Website: www.imcapitals.com
E-mail: imcapitalscompliances@gmail.com

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR AND QUARTER ENDED 31ST MARCH, 2024
(Rs. in Lacs except in Earning Per Share)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1.	Total income from operations	133.63	73.74	756.85	140.63	14,971.91	6,393.23	57,165.44	13,436.07
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	84.39	14.86	499.64	21.72	1,223.02	1,239.14	9,369.37	2,071.83
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	84.39	14.86	499.64	21.72	1,223.02	1,239.14	9,369.37	2,071.83
4.	Total Comprehensive Income/(Loss) for the year (Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax))	84.39	14.86	499.64	21.72	1,234.60	1,203.22	9,393.37	2,043.49
5.	Equity Paidup Share Capital	916.20	350.16	916.20	350.16	916.20	350.16	916.20	350.16
6.	Earnings Per Share (not annualized):								
	Basic (₹)	0.92	0.42	5.45	0.62	13.35	35.39	102.26	59.17
	Diluted (₹)	0.92	0.42	5.45	0.62	13.35	35.39	102.26	59.17

Notes:
1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30th May, 2024. The financial results for the quarter and year ended March 31st, 2024 have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
2. The above is an extract of the detailed format of Audited Quarterly and Yearly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and on the company website www.imcapitals.com

By order of the Board
Sd/-
VISHAL SINGHAL
(Director)
(DIN: 03518795)

Place: Ghaziabad
Date: 30th-May-2024

STANDARD SURFACTANTS LIMITED
Registered Office: 8/15, Arya Nagar, Kanpur-208002 (India) Tel: 0512-2531762
E-mail: headoffice@standardsurfactants.com Website: www.standardsurfactants.com
Corporate Identity Number: L24243UP1989PLC010950

STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2024
(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2023
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total income from operations (net)	3,746.15	3,251.40	3,382.03	13,136.05
2.	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	54.39	45.03	46.48	185.20
3.	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	54.39	45.03	46.48	185.20
4.	Net profit / (loss) for the period after tax	28.63	46.13	32.17	148.09
5.	Total comprehensive income for the period	28.78	46.13	35.57	148.24
6.	Paid-up equity share capital	-	-	-	822.66
7.	Other Equity	-	-	-	1954.78
8.	Earnings Per Equity Share (EPS) (Face Value Per Share Rs.10/-each)				
	a) Basic (Rs. Per share)	0.48	0.56	0.47	1.80
	b) Diluted (Rs. Per share)	0.48	0.56	0.47	1.80

Notes: 1. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 29, 2024. The statutory auditors have carried out an review of these financial results. 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly financial results are available on stock exchange websites and on Company's website. 3. The figures for the quarter ended March 31st, 2024 and March 31st, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures upon the third quarter of the respective financial year, which were only reviewed by statutory auditor.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Pawan Kumar Garg
Chairman & Managing Director
DIN-00250836

Place: Kanpur
Date: 30.05.2024

उपरोक्त पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड अत्यन्त ही-निविदा सूचना शुद्धि पत्र निविदा सं- ईटीसी-04/2024-25 में निविदा के कार्य की अंतिम तिथि 01 मई को स्थान पर 02 वर्ष बढ़ी जाये एवं धरोहर राशि रु. 7,11,000/- के साथ पर 14,22,000 पढ़ी जाये शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परेषण मण्डल, लाल डिग्री, अलीगढ़। राष्ट्र हित में बिजली बचाये, विद्युत शक्ति की सूचना "www.igpowerup.org" पंजाक: 769 वि०पा०म०(अ), निविदा प्रकाशन, 2024-25 दिनांक : 30.05.2024

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SANGAL PAPERS LIMITED (CIN: L21015UP1980PL005138) REGD. OFFICE: VILL. BHAINSA, 22KM STONE, MAWANA-MERUT ROAD, MAWANA, UP-250 401 website: www.sangalpapers.com, E-mail: accounts@sangalpapers.com, Tel: 01233-274324

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	4,915.69	19,133.03	6,019.32	22,812.37
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	135.61	346.82	82.28	479.83
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	135.61	346.82	82.28	479.83
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	86.18	247.07	62.39	338.59
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	86.19	242.35	61.90	334.46
6	Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	130.72	130.72	130.72	130.72
7	Other equity (Reserves excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	3976.30	3733.94	5788.60	3733.94
8	Earnings per equity share (face value of Rs. 10/- each) (not annualised)				
(a) Basic (In Rs.)		6.59	18.90	4.77	25.90
(b) Diluted (In Rs.)		6.59	18.90	4.77	25.90

NOTES:- 1. These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. 2. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.sangalpapers.com.

बिदस लिमिटेड (CIN: L72200DL1992PLC241971)

पंजीकृत कार्यालय: 711, 7वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराबन्सा रोड, नई दिल्ली-110001 ईमेल: bitsid@gmail.com, वेबसाइट: http://www.bits.net.in दूरभाष सं: 011-43656567

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के विवरण का अंश (संबंधी एलआईआर) विवरण, 2015 के विवरण 47 (1) (ग) के अनुसार (सभी संख्याएं में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्ति 31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्ति 31 मार्च 2023 (लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2023 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	24.42	20.76	89.48	80.14
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / हानि (कर, अपवादालयक और/वा असाधारण मदों से पहले)	3.11	1.52	13.67	0.96
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादालयक और/वा असाधारण मदों के बाद)	3.11	1.52	13.67	0.96
4	कर से बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादालयक और/वा असाधारण मदों के बाद)	3.11	1.52	13.67	0.96
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शुद्ध लाभ / हानि (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	3.11	1.52	13.67	0.96
6	युक्तता इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2/- रुपये)	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50
7	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है।	-	-	-	-
8	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (प्रत्येक 2/- रुपये) (जारी और बंद परिवर्तन के लिए)	0.0028	0.0014	0.0122	0.0009
ए मूल		0.0028	0.0014	0.0122	0.0009
बी. तरल		0.0028	0.0014	0.0122	0.0009

नोट: ए) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / परिणामों की ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 29 मई, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। बी) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समीक्षा, पुनः वर्गीकृत और पुनः तैयार किया गया है। सी) कंपनी केवल एक सेगमेंट में काम करती है। टी) 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूरे वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और क्रमशः 31 दिसंबर, 2023 और 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त नौ महीनों के लिए प्रकाशित आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं। निदेशक मंडल के आवेश से बिदस लिमिटेड के लिए इस्लाम/ओपेराटिव रिलेशनशिप एंड वेलफेयर (प्रबंध निदेशक) की कार्यवाही: 01428320

RTCL LIMITED (CIN NO.: L16003UP1994PLC016225) Registered Office : B/226, Second Floor, SCM Plaza, Arya Nagar, Kanpur, UP 208002. Tel. No.: 011-23852583, Fax No.: 011-23852666 Website: www.rtcllimited.in, E-mail:rgc.secretarial@gmail.com

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Financial Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Financial Year ended 31.03.2024 (Audited)
1.	Total income from operations (net)	385.830	-	9.703	385.830	385.830	-	9.703	385.830
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	194.285	(26.667)	2.855	179.482	194.285	(26.667)	2.855	179.482
3.	Net Profit/(Loss) after tax (after Extraordinary items)	194.285	(26.667)	2.855	179.482	194.285	(26.667)	2.855	179.482
4.	Minority Interest (Share of profit/(loss) of associates)*	-	-	(8.649)	36.195	13.921	-	-	30.705
5.	Net Profit/(Loss) after tax and minority interest*	194.285	(26.667)	2.855	179.482	185.636	9.528	16.776	210.187
6.	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Total Comprehensive Income for the period	194.285	(26.667)	2.855	179.482	185.636	9.528	16.776	210.187
8.	Equity Share Capital	120.012	120.012	120.012	120.012	120.012	120.012	120.012	120.012
9.	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	1,872.147	-	-	-	3,038.638
10.	Earning Per Share (of ₹10/- each)								
Basic :		-	-	-	-	-	-	-	-
Diluted :		1.619	(0.222)	0.024	1.496	1.547	0.079	0.140	1.751

NOTE: The above is an extract of the details format of the Standalone and Consolidated Financial Results for Quarter and Year ended on 31st March, 2024 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for Quarter and Year ended on 31st March, 2024 are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.rtcllimited.in).

MODERN INSULATORS LIMITED (CIN: L31300RJ1982PLC002460) Regd. Office: Talhari, Village Karoli, Tehsil Abu Road, Dist. Sirohi - 307510, Tel.: 02974-228044, Email Id: compliance@moderninsulators.com, Website: www.moderninsulators.com

Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Reviewed)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
Total Income from Operations	14021.91	10714.25	12275.87	44329.33	43095.58	43095.58
Net Profit / (Loss) for the period before Tax	1543.71	968.33	1143.32	3508.42	2603.69	2603.69
Net Profit / (Loss) for the period after Tax	1622.61	1038.88	1255.54	3649.13	2829.46	2829.46
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	1617.95	1014.93	1270.51	3644.89	2846.51	2846.51
Equity Share Capital	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)						
(a) Basic	3.44	2.15	2.66	7.74	6.00	6.00
(b) Diluted	3.44	2.15	2.66	7.74	6.00	6.00

Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter & Year ended 31st March, 2024 (₹ In Lacs except EPS)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Reviewed)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
Total Income from Operations	14021.2	10714.25	12275.87	44330.04	43095.58	43095.58
Net Profit / (Loss) for the period before Tax	1527.42	1028.11	1132.54	3465.62	2599.01	2599.01
Net Profit / (Loss) for the period after Tax	1604.19	1004.16	1244.76	3604.20	2794.78	2794.78
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	1599.53	1004.19	1259.73	3599.96	2811.83	2811.83
Equity Share Capital	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)						
(a) Basic	3.4	2.13	2.64	7.65	5.93	5.93
(b) Diluted	3.4	2.13	2.64	7.65	5.93	5.93

Notes: The above Audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 30, 2024. 2. The above results is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter & year ended 31st March, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.moderninsulators.com.

STANDARD SURFACTANTS LIMITED (CIN: L24243UP1989PLC010950) Registered Office: 8/15, Arya Nagar, Kanpur-208002 (India) Tel: 0512-2531762 E-mail: headoffice@standardsurfactants.com, Website: www.standardsurfactants.com Corporate Identity Number: L24243UP1989PLC010950

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
		(Rs. in Lacs)				
1.	Total income from operations (net)	3,746.15	3,251.40	3,382.03	13,136.05	15,312.40
2.	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	54.39	45.03	46.48	185.20	209.28
3.	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	54.39	45.03	46.48	185.20	209.28
4.	Net profit / (loss) for the period after tax	28.63	46.13	32.17	148.09	155.83
5.	Total comprehensive income for the period	28.78	46.13	35.57	148.24	155.83
6.	Paid-up equity share capital	-	-	-	822.66	762.96
7.	Other Equity	-	-	-	1,954.78	1,678.19
8.	Earnings Per Equity Share (EPS) (Face Value Per Share Rs. 10/- each)					
a) Basic (Rs. Per share)	0.48	0.56	0.47	1.80	2.04	
b) Diluted (Rs. Per share)	0.48	0.56	0.47	1.80	2.04	

Notes: 1. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 29, 2024. The statutory auditors have carried out an review of these financial results. 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly financial results are available on stock exchange websites and on Company's website. 3. The figures for the quarter ended March 31st, 2024 and March 31st, 2023 are the balancing figures of the respective financial year, which were only reviewed by statutory auditor.

बिदस लिमिटेड (CIN: L72200DL1992PLC241971)

पंजीकृत कार्यालय: 711, 7वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराबन्सा रोड, नई दिल्ली-110001 ईमेल: bitsid@gmail.com, वेबसाइट: http://www.bits.net.in दूरभाष सं: 011-43656567

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का अंश (संबंधी एलआईआर) विवरण, 2015 के विवरण 47 (1) (ग) के अनुसार (सभी संख्याएं में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्ति 31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्ति 31 मार्च 2023 (लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2023 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	24.42	20.76	89.48	80.14
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / हानि (कर, अपवादालयक और/वा असाधारण मदों से पहले)	3.11	1.52	13.67	0.96
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादालयक और/वा असाधारण मदों के बाद)	3.11	1.52	13.67	0.96
4	कर से बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादालयक और/वा असाधारण मदों के बाद)	3.11	1.52	13.67	0.96
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शुद्ध लाभ / हानि (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	3.11	1.52	13.67	0.96
6	युक्तता इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2/- रुपये)	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50
7	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है।	-	-	-	-
8	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (प्रत्येक 2/- रुपये) (जारी और बंद परिवर्तन के लिए)	0.0033	(0.0167)	0.2156	(0.0055)
ए मूल		0.0033	(0.0167)	0.2156	(0.0055)
बी. तरल		0.0033	(0.0167)	0.2156	(0.0055)

नोट: ए) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / परिणामों की ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 29 मई, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। बी) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समीक्षा, पुनः वर्गीकृत और पुनः तैयार किया गया है। सी) कंपनी केवल एक सेगमेंट में काम करती है। टी) 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूरे वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और क्रमशः 31 दिसंबर, 2023 और 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त नौ महीनों के लिए प्रकाशित आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं। निदेशक मंडल के आवेश से बिदस लिमिटेड के लिए इस्लाम/ओपेराटिव रिलेशनशिप एंड वेलफेयर (प्रबंध निदेशक) की कार्यवाही: 01428320

मधुपेट केपिटल सर्विसेज लिमिटेड | सोने की नीलामी की सूचना

Regd. Office: 5th Floor, Muthoot Towers, M.G. Road, Ernakulam - 682035, CIN: U65900MH1992PLC062228, Ph: 91 484 427500

सोने की नीलामी की सूचना के लिए मधुपेट केपिटल सर्विसेज लिमिटेड के विनिर्देशों के अनुसार सोने की नीलामी का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सोने की नीलामी का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सोने की नीलामी का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

zomato ज़ोमैटो लिमिटेड (CIN: L9303DL2010PLC198141) पंजीकृत कार्यालय: मू. तल 12 ए. 94 मधुपेट, नैरुह प्लेस, नई दिल्ली-110019, भारत वेबसाइट: www.zomato.com, ई-मेल: companysecretary@zomato.com फोन नंबर: 011-40592373

डाक-मतपत्र सूचना ("सूचना") सदस्यों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अतिरिक्त, 2013 ("अभियोग") की धारा 108 तथा धारा 110 के तहत पंजीकृत कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और नियम 22 (सामान्य मामलों की वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अभियोग सहित), भारतीय प्रतिष्ठान एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम और प्रकटीकरण अधिनियम) नियम, 2015 के विनियम 44, ईस्टीमेट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य वैधानिक विवादों के विषय में जारी संचयीय मानक - 2, रिवायट और स्पष्टीकरणों को जो की कंपोर्टेड कार्य मॉडल द्वारा जारी जर्नल सफुल्ल नंबर 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, जो जर्नल सफुल्ल नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, जर्नल सफुल्ल नंबर 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, जर्नल सफुल्ल नंबर 33/2020 दिनांकित 28 सितंबर, 2020, जर्नल सफुल्ल नंबर 39/2020 दिनांकित 31 दिसंबर, 2020, जर्नल सफुल्ल नंबर 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021, जर्नल सफुल्ल नंबर 20/2021 दिनांकित 8 दिसंबर, 2021, जर्नल सफुल्ल नंबर 3/2022 दिनांकित 5 मई, 2022, जर्नल सफुल्ल नंबर 11/2022 दिनांकित 28 दिसंबर, 2022 तथा जर्नल सफुल्ल नंबर 9/2023 दिनांकित 25 सितंबर, 2023 ("एनएसई सफुल्ल नंबर") के साथ पंजीकृत, भारतीय प्रतिष्ठान एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी की गई सफुल्ल और अन्य लागू कानूनी तथा विनियमों, यदि कोई, के अनुसार, जोमैटो लिमिटेड ("कंपनी") ने उन सभी सदस्यों को, जिनके ईमेल पते दिनांक शुक्रवार, 24 मई, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") तक कंपनी / डिवाइसिटी / डिवाइसिटी पार्टिसिपेंट्स / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट ("आरटीए"), लिंक इन्स्टाटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एलआईआर") के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम सदस्यों के रजिस्ट्रार/लाभकारी मालिकों की सूची में मौजूद है, केवल इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से गुरुवार, 30 मई 2024 को व्याख्यात्मक विवरण के साथ नोटिस का प्रेषण किया गया है। सूचना, डाक-मतपत्र और प्री-पेड डिजिटल लिफाफे, जो नैतिक प्रति भेजने की आवश्यकता प्राथमिक एनपीसी सफुल्ल द्वारा अंतिम तिथि तक पहुंचाने के लिए प्रेषित हैं। सदस्यों को नोटिस के माध्यम से अपने संचयन को अंतिम तिथि तक पहुंचाने के लिए प्रेषित हैं। सदस्यों को अपने संचयन को अंतिम तिथि तक पहुंचाने के लिए प्रेषित हैं।

STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2024 (₹ In Lacs)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Financial Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Financial Year ended 31.03.2024 (Audited)
1.	Total income from operations (net)	(24.832)	-	-	-	(24.832)	-	-	-
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	7.545	7.424	(73.534)	14.501	7.545	7.424	(73.534)	14.501
3.	Net Profit/(Loss) after tax (after Extraordinary items)	7.545	7.424	(73.534)	14.501	7.545	7.424	(73.534)	14.501
4.	Minority Interest (Share of profit/(loss) of associates)*	-	-	-	(7.451)	2.629	12.029	(1,443)	-
5.	Net Profit/(Loss) after tax and minority interest*	7.545	7.424	(73.534)	14.501	0.094	10.053	(61,505)	13,058
6.	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Total Comprehensive Income for the period	7.545	7.424	(73.534)	14.501	0.094	10.053	(61,505)	13,058
8.	Equity Share Capital	50.002	50.002	50.002	50.002	50.002	50.002	50.002	50.002
9.	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	458.403	-	-	-	864.472
10.	Earning Per Share (of ₹10/- each)								
Basic :		-	-	-	-	-	-	-	-
Diluted :		0.151	0.148	(1.471)	0.290	0.002	0.201	(1,230	